

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 18.03.2023**

**अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त जितेन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 97 टेबलेट अल्प्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. जितेन्द्र कुमार पुत्र शिवनरायन निवासी कचरौली थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-47/22, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 97 टेबलेट अल्प्राजोलम।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ0नि0 प्रेमानन्द मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 18.03.2023**

**पुलिस अधीक्षक लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-**

गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त-प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना धानेपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लडकी के पिता द्वारा थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. प्रदीप कुमार पुत्र फूलचन्द निवासी दुबहा थाना निघासन जनपद लखीमपुरखीरी।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं० 78/2023 धारा 363,366,506 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोंडा

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

उ०नि० संतोष कुमार यादव मय टीम।

**कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 18.03.2023**  
**शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना परसपुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।